

[This question paper contains 4 printed pages]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : **7947**
Unique Paper Code : 2413080035
Name of the Paper : Behavioural Finance
Type of the Paper : Discipline Specific Elective
Semester : VIII
Programme : B.Com.(H.)

Duration: **Three (3) Hours**

Maximum Marks: **90 Marks**

Instructions for Candidates:

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. There are **Five (5) questions** in total, with internal choice for each question.
3. Parts of the questions to be attempted together.
4. All questions carry equal marks.

Q1 a) "Neoclassical economics assumes rational, utility maximising individuals operating under perfect information." Critically examine this statement and discuss its relevance in financial decision making. (9)

b) Critically evaluate the relevance of Modern Portfolio Theory in present financial world. (9)

OR

a) "Market prices fully reflect all the available information for a stock in the market." Critically analyze this statement. (9)

b) Explain Expected Utility Theory with suitable examples. (9)

Q2. a) Explain the size effect and the value effect as stock market anomalies. How do these challenge the Efficient Market Hypothesis? (9)

b) Discuss the Global Financial Crisis of 2008 from a behavioural finance perspective. What role did the behavioural biases play in the build-up and collapse? (9)

OR

a) Discuss the pioneering contributions of Nobel Laureates Daniel Kahneman and Amos Tversky to the emergence and development of Behavioural Finance as a discipline. (9)

b) Explain the Dot-com Bubble as an example of a speculative market bubble. What were the key behavioural drivers responsible for its formation and eventual collapse? (9)

Q3 a) Explain the concept of incomplete information and its impact on investment decisions.(9)

b) Discuss the concept of bounded rationality with suitable financial examples. (9)

OR

a) Explain how reliance on heuristics can lead to systematic errors in judgement. (9)

b) Explain Prospect Theory with suitable examples. (9)

Q4 a) How do framing effects and advertising influence investor decision-making in financial markets? (9)

b) Explain the concept of the Market for Lemons as proposed by Akerlof. (9)

OR

a) Discuss the economic characteristics of financial contracts under conditions of risk neutrality and risk aversion. (9)

b) How do herd behaviour and overconfidence in the mutual fund industry affect fund flows and asset prices? (9)

Q5. Write short notes on any TWO of the following: ($2 \times 9 = 18$ Marks)

(i) Familiarity Bias

(ii) Gambler's Fallacy

(iii) Signalling in Financial Markets

(iv) Moral Hazard in Financial Contracts

प्रश्न 1.

क) “नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र पूर्ण सूचना के अंतर्गत तर्कसंगत, उपयोगिता को अधिकतम करने वाले व्यक्तियों की कल्पना करता है।” इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और वित्तीय निर्णय लेने में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। (9)

ख) वर्तमान वित्तीय जगत में आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (9)

या

क) “बाजार मूल्य बाजार में किसी शेयर के लिए उपलब्ध सभी सूचनाओं को पूर्णतः प्रतिबिंबित करते हैं।” इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (9)

ख) उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपेक्षित उपयोगिता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। (9)

प्रश्न 2.

क) शेयर बाजार की विसंगतियों के रूप में आकार प्रभाव और मूल्य प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये किस प्रकार कुशल बाजार परिकल्पना को चुनौती देते हैं? (9)

ख) 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर व्यवहारिक वित्त के परिप्रेक्ष्य से चर्चा कीजिए। इसके निर्माण और पतन में व्यवहारिक पूर्वाग्रहों ने क्या भूमिका निभाई? (9)

या

क) व्यवहारिक वित्त को एक विषय के रूप में विकसित करने में नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कहनमैन और एमोस ट्वेस्की के अग्रणी योगदान पर चर्चा कीजिए। (9)

ख) डॉट-कॉम बुलबुले को सट्टा बाजार बुलबुले के उदाहरण के रूप में समझाइए। इसके निर्माण और अंततः पतन के लिए जिम्मेदार प्रमुख व्यवहारिक कारक क्या थे? (9)

प्रश्न 3 (क) अपूर्ण सूचना की अवधारणा और निवेश निर्णयों पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। (9)

ख) उपयुक्त वित्तीय उदाहरणों के साथ सीमित तर्कसंगतता की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। (9)

या

क) समझाइए कि किस प्रकार अनुमानों पर निर्भरता निर्णय में व्यवस्थित त्रुटियों का कारण बन सकती है। (9)

ख) उपयुक्त उदाहरणों के साथ प्रॉस्पेक्ट थ्योरी की व्याख्या कीजिए। (9)

प्रश्न 4 (क) वित्तीय बाजारों में निवेशकों के निर्णय लेने पर फ्रेमिंग प्रभाव और विज्ञापन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? (9)

ख) एकेरलॉफ द्वारा प्रस्तावित लेमन्स मार्केट की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। (9)

या

क) जोखिम तटस्थता और जोखिम से बचने की स्थितियों में वित्तीय अनुबंधों की आर्थिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। (9)

ख) म्यूचुअल फंड उद्योग में झुंड व्यवहार और अति आत्मविश्वास फंड प्रवाह और परिसंपत्ति मूल्यों को कैसे प्रभावित करते हैं? (9)

प्रश्न 5 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

(2 × 9 = 18 अंक)

(i) परिचितता पूर्वाग्रह

(ii) जुआरी की भ्रांति

(iii) वित्तीय बाजारों में संकेत

(iv) वित्तीय अनुबंधों में नैतिक जोखिम